

### प्री-के लॉटरी प्रक्रिया के चरण

1. प्री-के सीट के लिए ऑनलाइन आवेदन दें
2. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
3. सूचना के लिए अपनी ईमेल और या माता-पिता इलेक्ट्रॉनिक डैश जांचें
4. अपनी सीट को स्वीकार या अस्वीकार करें
5. स्वीकार करने पर, आवश्यक दस्तावेज़ों को नामांकन अवधि, 5-19 मई, 2020 के दौरान अपने आवंटित स्कूल में ले जाएं
6. यदि आपको प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, तो सीट आवंटन की संभावना और आगे के निर्देशों के लिए अपनी ईमेल की करीब से निगरानी करें
7. बच्चों को तब तक प्री-किंडरगार्टन कार्यक्रम में औपचारिक रूप से नामांकित नहीं किया जाएगा जब तक माता-पिता/और या अभिभावक पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेते। वे बच्चे जो सुबह 10 बजे से पहले स्कूल के पहले दिन उपस्थित नहीं होते उन्हें प्री-के कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

### प्री-के के लिए आवश्यक दस्तावेज़

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपलोड किए जाने वाले और आपको आवंटित स्कूल में नामांकन अवधि 5-19 मई 2020 के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

1. **जन्म का सबूत** (आपके बच्चे की आयु 1 सितंबर 2020 को या उससे पहले चार वर्ष होनी चाहिए)
  - मूल प्रमाणित जन्म प्रमाणपत्र, बच्चे के जन्म का हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, ग्रीन कार्ड, पिंक कार्ड या फेडरल आई-94 कार्ड; या बच्चे का पासपोर्ट (इन दस्तावेज़ों की प्रतिकृतियों को स्वीकार नहीं किया जाता है)
2. **कानूनी अभिभावकता का सबूत** (यदि लागू हो)
  - केवल तभी आवश्यक यदि आपका नाम बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र पर नहीं लिखा है
3. **माता-पिता/अभिभावक की पहचान का सबूत**
  - राज्य या सरकार द्वारा जारी मान्य फोटो आईडी, जैसे कि Georgia ड्राइवर लाइसेंस, या मान्य अमेरिकी पासपोर्ट आईडी
4. **माता-पिता/अभिभावक के Georgia में निवास का सबूत\***
  - आपके नाम पर मोर्टगेज या लीज़/किराया समझौता, या आपके नाम पर बिजली, गैस, या पानी का बिल, केबल और फोन का बिल स्वीकार नहीं किया जाता है

\*यदि आप किसी के साथ रह रहे हैं और आपके पास अपने नाम पर लीज़, मोर्टगेज या यूटिलिटी बिल नहीं है, तो आपको निम्नलिखित को जमा करना चाहिए: हस्ताक्षरित और नोटरी किया आवास शपथ-पत्र और वह व्यक्ति जिसके साथ आप रह रहे हैं उसके नाम पर लीज़/मोर्टगेज कथन या यूटिलिटी बिल और बच्चे के अभिभावक के नाम पर मेल का फॉर्म जिसमें शपथ-पत्र से मेल खाता पता दिखाया गया हो।

यदि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सूचना मिलती है कि आपके बच्चे का चयन हो चुका है, तब आपको सीट को ऑनलाइन स्वीकार करना चाहिए और अपने आवंटित स्कूल में नामांकन अवधि 5-19 मई 2020 के दौरान अपलोड किए मूल दस्तावेज़ (1-4) और बाद के दस्तावेज़ (5-8) प्रस्तुत करने चाहिए।

5. **बच्चे का मूल सोशल सेक्यूरिटी कार्ड या "वेवर" (त्याग)**
  - वेवर की आवश्यकता होने पर, नामांकन सत्र के दौरान आपको वह प्रदान किया जाएगा
6. **बच्चे का पीचकेयर कार्ड, मेडिकेड कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, EBT कार्ड (फूड स्टैम्प) और/या TANF (यदि लागू हो)**
7. **प्रतिरक्षण प्रमाणपत्र (3231)**
8. **दृष्टि, श्रवण, पोषण, व दंत जांच प्रमाणपत्र (3300)**

**प्री-के सीट का आवंटन आवश्यक दस्तावेज़ों के प्रमाणीकरण पर निर्भर करता है।**